

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा इस कठिन समय में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति मुहैया करना ।

नई दिल्ली, 14 जून 2021: वैक्सीन, चिकित्सा उपकरण तथा अन्य आवश्यक आपूर्तियों को उनके गंतव्य तक यथासमय एवं सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए जयपुर हवाई अड्डा अथक रूप से प्रयासरत है।

जयपुर हवाई अड्डा से 1 मई, 2021 से 9 जून, 2021 तक विभिन्न एयरलाइंस के माध्यम से कोविड वैक्सीन के कुल 683 बक्से (20.59 एमटी), ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर, के 527 बक्से (8.24 एमटी) ऑक्सीमीटर के 42 बक्से (475 किलोग्राम), कोविड 19 जांच किट के 30 बक्से (542 किलोग्राम), वैक्सीनेशन किट के 08 बक्से (224 किलोग्राम) एवं ब्लैक फंगस दवाइयों के 85 बक्से (612 किलोग्राम) पहुंचाए गए।

ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए, भारतीय वायुसेना एयरक्राफ्ट (सी 17) द्वारा 26 अप्रैल, 2021 से 16 मई, 2021 तक जयपुर से जामनगर कुल 09 खाली ऑक्सीजन टैंकर्स पहुंचाए गए।

इसके अतिरिक्त जयपुर हवाईअड्डा भी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार सभी कोविड 19 संबंधित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का अनुपालन कर रहा है। हवाई अड्डा कर्मचारी सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों, कर्मचारियों आदि से कोविड संबंधी उचित व्यवहार का अनुपालन करने और भीड़ को कम करने के लिए अलग-अलग समय का पालन करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहे हैं। कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाईअड्डा टर्मिनल पर कई इलेक्ट्रॉनिक और स्थायी डिस्प्ले के माध्यम से निर्देश भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

राजस्थान सरकार के सहयोग और समर्थन से, भाविप्रा कर्मचारियों और अन्य सहभागियों के लिए जयपुर हवाई अड्डे पर सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कोविड टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया गया। जयपुर हवाईअड्डे पर मई और जून, 2021 माह के दौरान कुल 09 टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 2000 कर्मियों को टीका लगाया गया।

निगमित संचार निदेशालय द्वारा जारी
विवरण के लिए कृपया संपर्क करें, महाप्रबंधक (नि.सं)

011-24622787

प्रेस विज्ञप्ति संख्या 16/2021-22